

## मीयादी जमाराशि/आवर्ती जमाराशि खाता खोलने का फार्म TERM DEPOSIT/RECURRING DEPOSIT ACCOUNT OPENING FORM

(जहाँ लागू हो वहाँ ( $\checkmark$ ) निशान लगाएँ/ Please tick ( $\checkmark$ ) where applicable)

ग्राहक आई. सी./Customer IC		/Account No.					
ग्राहक आई.डी./Customer ID		उत्पाद का न	ाम/Product Name	1			
प्तेवा में/To				स्थान/Place:			
शाखा प्रबंधक/The Branch Manager				दिनांक/Date:			
सेंडिकेट बैंक/SyndicateBank,	शाखा/Branch.						
प्रेय महोदय/Dear Sir,							
वें आपसे निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार खाता खोलने के लि	ाए अनुरोध करता हैं । मैं स	हमत हैं कि इस	। फार्म में, एकवचन में ब	हवचन और बहव	चन में एकव	चन भी शामिल है।	
request you to open an account as per the deta				-			
	जमाराशि/प्रमाण पत्र व		रकम	जमाराशि की	ब्याज दर/		
जमाराशि के विवरण/	Nature of Depo Certificate	sit/	Amount (₹)	Period of Deposit		Rate of Interest	
Particulars of Deposit							
आवेदक/कों का नाम, पते एवं दूरभाष संख्याएं और अ ा	· ·	adress & I		otner partic		<u> </u>	
	क/A		ख/ <b>B</b>		<u>ग</u>	r/C	
नाम/Name							
जन्म दिनांक/Date of Birth							
व्यवसाय/Occupation							
पता/Address							
<u> </u>							
दूरभाष/मोबाइल सं/Tel./Mobile No.							
फैक्स/ई-मेल/Fax/e-mail							
पी.ए.एन./PAN							
संरक्षक का नाम (नाबालिग खाते के मामले में)/ Name of Guardian (in the case of Minor's account)							
इस शाखा/अन्य शाखा में रखे गए वर्तमान खाते/खातों के विवरण/Particulars of existing account/s with this branch/other branch							
अन्य बैंकों में रखे गए वर्तमान खाते/खातों के विवरण/ Particulars of existing account/s with other banks							
खाता खोलने के लिए विप्रेषण के ब्यौरे/Details of R	emittance for Open	ing of Acco	ount				
• माँग ड्राफ्ट/बैंकर चेक संख्या/Demand Draft/Ban	•	•		टिगंक /	datad		
रकम/ amount				14-114-7 (	1aleu		
• डाक अंतरण/तार अंतरण संख्या/Mail Transfer/Te		-					
दिनांक/datedरव							
<ul> <li>विप्रेषक बैंक का नाम और पता/Name and Addre</li> </ul>	-						
• अन्य कोई (उल्लेख करें)/Any other (specify):							
ब्याज का भुगतान आदि से संबंधित अनुदेश /Instruc							
🗖 कृपया ब्याज को				_			
Please remit interest by DD/TT/MT favouring  ☑ आपकी							
Credit interest to my Account No.							
🔲 अन्य अनुदेश (कृपया उल्लेख करें)।/ Other instruc		_	-				
	कृपया प्रतिमाह दिनांक						
आवर्ती जमाराशियों के मामले में/	खाता सं						
IN CASE OF RECURRING DEPOSITS	Please debit monthl	y instalmen	t of ₹	to my SB/CA/OD Account			
	No	with s	ou/	hro	nch		

लिए बाय नहीं होगा   / l agree that if any of the statements/deciarations made here is found to be incorrect in material particulars, the Bank is not bound to pay any interest on the deposit made by me.    अस्मित है कि मेरे छाने से संबंधित बोकना के उन प्रावधानों का पालन करूँगा जिन्हें बैंक/भारतीय रिवर्ड के द्वारा समय-समय पर निर्देष्ट किय जाते हैं। / l agree to abide by the provisions of the scheme in respect of my account, as prescribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to interest and    असमता है असे सहमत होता है कि यदि मीयादी जमाराशि को परिपक्तत से पहले गुगतान किया जात है तो, उत्तर जमाराशि पर उस अवधि के लिए लगा होने होता है जाते हैं के स्वाराशिय उस अवधि के लिए लगा होने होता है जाते हैं के स्वाराशिय उस अवधि के लिए लगा होने होता है जाते हैं के स्वाराशिय उस अवधि के लिए लगा होने होता है जो तो होने होता है जो है जो है जो है जो है जो होता है जो है			
से उसका से सर्गिक संपक्ष हैं [ ने उसके कालिग हों कर कालि के सभी भागी संवालों में उसका करिया हैं है असके कालिग हों कर काले के सभी भागी संवालों में उसका प्रतिविध्य करेगा ! १, खाले में में हाय किए एए किसी भी लोन-के के लिए किसी भी लोन के सिलियुं किस्ता   I hereby declare that the date of birth given above of the above minor, who is my			
हों ते तक बाते के सभी भावी संवालतों में उसका प्रतिनिधिक्त करेगा। मैं, बाते में से हाय किए एक्ट किसी भी तेन-देन के लिए किसी भी रावे की सिंगूर्ति करेगा।  I hereby declare that the date of birth given above of the above minor, who is my	मैं एत   अ	ादद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त नाबालिंग जो मेरा/मेरी	है, उसका उपर्युक्त जन्म दिनांक सही है।
I hereby declare that the date of birth given above of the above minor who is my	में उस	का नैसर्गिक संरक्षक हूँ /न्यायालय आदेश दिनाक	द्वारा (प्रति सलग्न है) नियुक्त किया गया विधिपूर्ण सरक्षक हूँ । मैं उसके बालिंग
the natural guardian/jawful guardian appointed by the Court Order dated			
her in all future transactions in the account until he/she attains majority. I indemnify the Bank against any claim for any transactions made by me in the account.  शिगंक/Date:  (संख्यक के इस्तावशः)/(Signature of the Guardian)  ग्रोबणाएँ, (को लागू है उस पर निशान (**) लगाएँ)/Declarations: (tick (**) whichever is applicable)  ग्री समझत है और सहनत होता है कि में द्वार दिए गए बयानें/ पोषणाओं के आपार पर उर्जुकत खाता खाता बाएगा I/I understand and agree that the above account will be opened on the basis of statements/declarations made by me.  ग्री समझत है कि येह इससे दिए गए बयानें/ पोषणाओं में किसी भी महत्वण्य विवसण मतन पास बता है तो बैंक, में द्वारा वस की गरी रिष्ट पर अपन करने के लिए बाया-विहें हो होंगा I/I agree that if any of the statements/declarations made here is found to be incorrect in malerial particulars, the Bank is no bound to pay any interest on the deposit made by me.  श्री समझत है और बसन होता है कि बार में मार्थ असामार्थ का प्रेपकाल कि किसी में महत्वण के किसी के किए कि का का का का obtained to pay any interest on the deposit made by me.  श्री समझत है और बसन होता है कि बार मी गार्थ असामार्थ को परिकाल कि किसी हो कि बार में स्ति असामार्थ के किस हमार्थ के किसी हमार्थ के असामार्थ के असामार्थ के स्ति का	I her	reby declare that the date of birth given above of the above mi	nor, who is myis true. I am
by me in the account.    शिशंक / Date:			
त्रोबचाएँ, ('वो लागू है उस पर निशान (*') लगाएँ) / Declarations: (tick (*') whichever is applicable)  ) मैं समझता दूँ और सहमत होता हूँ कि मेरे द्वारा विए गए बवानों /पोचचाओं के आधार पर उपर्युक्त खाता खोला चाएगा ।/। understand and agree that the above account will be opened on the basis of statements/declarations made by me.  i) मैं सहसत हूँ कि वरि इसमें विए गए बवानों /पोचचाओं में किसी भी महत्वपूर्ण विदारण गत्तत पात्रा जाते है तो बैंक, मेरे द्वारा जमा की गरी एशि पर ब्वाज अवा करने के लिए प्रचार जाते हैं तो में हम की प्रचार के कार्य करने के लिए प्रचार जो हो हो हो हम हो हम			,,,,
त्रोबचाएँ, ('वो लागू है उस पर निशान (*') लगाएँ) / Declarations: (tick (*') whichever is applicable)  ) मैं समझता दूँ और सहमत होता हूँ कि मेरे द्वारा विए गए बवानों /पोचचाओं के आधार पर उपर्युक्त खाता खोला चाएगा ।/। understand and agree that the above account will be opened on the basis of statements/declarations made by me.  i) मैं सहसत हूँ कि वरि इसमें विए गए बवानों /पोचचाओं में किसी भी महत्वपूर्ण विदारण गत्तत पात्रा जाते है तो बैंक, मेरे द्वारा जमा की गरी एशि पर ब्वाज अवा करने के लिए प्रचार जाते हैं तो में हम की प्रचार के कार्य करने के लिए प्रचार जो हो हो हो हम हो हम	٠		
प्रोषणाएँ: (को लागू है उस पर निशान (*) लगाएँ) / Declarations: (tick (*) whichever is applicable)  मैं समझता हूँ और सहमत होता हूँ कि मेरे द्वार दिए गए बमानें/ योगणाओं के आधार पर उपर्युक्त खाता खोला जाएगा i/i understand and agree that the above account will be opened on the basis of statements/declarations made by me.  ### अहमत होता के मेरे वह वार	।दनाव	क/Date:	(संरक्षक के हस्ताक्षर)/(Signature of the Guardian)
i) मैं समझता हूँ और सहसत होता हूँ कि मेरे द्वारा विष् गए बयानों /घोषणाओं के आधार पर उपयुक्त खाता खोला जाएगा ।/ lunderstand and agree that the above account will be opened on the basis of statements/declarations made by me.  ii) मैं रहसत हूँ कि यहि इसमें हिए पूचानों /घोषणाओं में किसी भी महत्वपूर्ण विदयण त्यात पाया जात है तो बैंक, मेरे द्वारा अमा की गयी राशि पर व्याव अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा  / lagree that if any of the statements/declarations made here is found to be incorrect in material particulars, the Bank is not bound to pay any interest on the deposit made by me.  iii) मैं समझता हूँ कि मेरे खाते से संबंधित योजना के उत्त प्रवाचानों का पारन करूंगा विनर्ध के हमारतीय रिवर्ज बैंक हमा मार निर्देश किए वाली हैं  / lagree to abide by the provisions of the scheme in respect of my account, as prescribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to time to be the bank of the first and agree that where term deposits are repaid before maturity, the rate of interest payable would be the rate applicable to the period for which the deposit remained with the Bank as on the oda of opening the account less the applicable penal rate (Currently the rate is 1%).  y) आन्तारिय पर क्रण /अविधिय समायन / द्वित्वेत समायन / द्वत्वेत समायन / द्वित्वेत समायन / द्वित्वे		mi. (→	
account will be opened on the basis of statements/declarations made by me.  मैं यहात दूँ कि यह इसमें दिए गए बयाजों पोषणाओं में किसी भी महत्यपूर्ण विवरण गत्तर पाया जाता है तो बैंक, मेरे द्वारा जमा की गयी राशि पर ब्याज अदा करने के लिए बायन वहीं होगा 1/1 agree that if any of the statements/declarations made bere is found to be incorrect in material particulars, the Bank is not bound to pay any Interest on the deposit meade by me.  ### सहमत दूँ कि मेरे खाते ये संबंधिय गोजना के उन प्रायमणी का पारत-कर्षणा जिन्दे बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देष्ट किए लाए होते वाल कात of the statements of my account, as prescribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to time and and survey of the statement of the state of my account, as prescribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to time and and survesting the statement of the state of the statement of the statemen			
लिए बाय नहीं होगा   / l agree that if any of the statements/declarations made here is found to be incorrect in material particulars, the Bank is not bound to pay any interest on the deposit made by me.    अस्मित है कि मेरे खारे से संबंधित बोकना के उम प्रावधानों का पालन करूँगा जिन्हें बैंक /भारतीय रिवर्ज के द्वारा समय-समय पर निरिष्ट किय लाते हैं / l agree to abide by the provisions of the scheme in respect of my account, as prescribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to burd and    असमता है और सहमत होता है कि यदि मीयादी जमारिश को परिपक्तत से पहले मुगतान किया जाते हैं तो, उत्तर जमारिश पुर उस अवधि के लिए लगा होनेवाली ब्या उस से रुप्त हम्माता है और संकल देवाल (फिलहाल 1%) को काटकर ब्याज प्रतान किया जाएगा जिस अवधि के लिए कमारिश को बैंक के पास खा गया है   / I understand and agree that where term deposits are repaid before maturity, the rate of interest payable would be the rate applicable to the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (remain) the thin the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (remain) the remains of the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate formly the rate is 1%).    अस्मित के क्षाय कि क्षाय के का प्रति के लिए प्रावधा के का प्रतास के लिए प्रावधा के का प्रतास के का	-	account will be opened on the basis of statements/declarations	s made by me.
iii) में सहसत हूँ कि मेरे बाते से संबंधित योज्या के उत्त प्रावधार्ग का पात्र करना जिस्ते बैंक (भारतीय रिजर्व के द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाते हैं। // l agree to abide by the provisions of the scheme in respect of my account, as presoribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to time and with the provisions of the scheme in respect of my account, as presoribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to time and with the deposit of the provisions of the scheme in respect of my account, as presoribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to time and agree that where term deposits are repaid before maturity, the rate of interest payable would be the rate applicable to the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (the period) agree that where term deposits remained with the Bank so not the date of the date of the period of the period of the provided and agree that the scheme is the period of the period of the period of the proceeds of the deposit of us for more /latter of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan /advance against the security of this deposit to be made in our joint names, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter /either of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan /advance against the security of this deposit to be made in our joint names, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter /either of us, in the same and the first and any of us, with laws a right of upstituding the first and any of the period of the proceeds of the deposit to the		लिए बाध्य नहीं होगा ।/ I agree that if any of the statements/declara	विवरण गलत पाया जाता है तो बैंक, मेरे द्वारा जमा की गयी राशि पर ब्याज अदा करने के ations made here is found to be incorrect in material particulars, the Bank
bo abide by the provisions of the scheme in respect of my account, as prescribed by the Bank/Reserve Bank of India from time to time and and "मैं समझता हूँ और सहमत होता हूँ कि यदि मीयादी बमाराशि को परिजवला से पहले भुगलान किया जाता है तो, उक्त बमाराशि पर उस अवधि के लिए लागू होनेवाली ब्याज र से दण्डर स्वरूप ब्याज र (फिलाइल (%) को काटकर ब्याज प्रदास किया जाएगा जिस अवधि के लिए बमाराशि को बैंक के पास रखा गया है 1/1 understand and agree that where term deposits are repaired before maturiny, the rate of interest payable would be the rate pipicable to the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (Currently the rate is 1 %).  जमाराशि पर अण/ अवधिभूष संसाय/ इणिकेट रसीच लाती करने के लिए प्राचिक्त ते देना हम से विसीय के प्रति पर अण्डि अवधिन के अपहारि के अपीच (क) हमारे संयुक्त नाम पर रखी जानेवाह प्रस जमाराशि की जमारत पर आण/ अधिम को मुर्ची (खू पूर्वर्ती/उत्सवली व्यक्ति) हम से में किसीय (क) हमारे संयुक्त नाम पर रखी जानेवाह प्रस जमाराशि की जमारत पर आण/ अधिम को मुर्ची (खू पूर्वर्ता) विराव व्यक्ति हम से किसी के के बात से पर आण्डित उठाने के लिए हम में से किसी के वैधा ति स्वाच के स्वाच के स्वच हमाराशि को जमारत होता है और वैक द्वारा मंजूर किए गण्डिक उठाने के लिए हम में से किसी के वैधा ति स्वच नहीं होगा।  Authorisation for Loan against Deposit/Premature Closure/Issue of Duplicate Receipt: The Bank may, on receipt of a written request from either of us/sur/wor of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may singulate, (a) grant loan /advance against the security of this deposit to be made in our joint name was conditions as the Bank may strate of the deposit to the former/latter/either of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank to question the said granting of the loan or premature perspent of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank to question and subject to su		is not bound to pay any interest on the deposit made by me.	
भे समझता हैं और सहमत होता हैं कि यदि मीयादी बमाराष्ट्रि को परिपक्तता से पहले घुगतान किया जाता है तो, उबल वमाराष्ट्रि पर अवधि के लिए लागू होनेवाली व्याव द से बच्च दक्क प्रवाद (फिलाइल 1%) को काटकर व्याव प्रदास की वाणाणा जिस अवधि के लिए वमाराष्ट्रि को बैंक के पास देता देता है ।/ understand and agree that where term deposits are repaid before maturity, the rate of interest payable would be the rate applicable to the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (Currently the rate is 1 %).  अन्याराष्ट्रिय समाप/ अग्निम की मन्दर्श समाप/ इंग्लिकेट रसीच जारी करने के लिए प्रतिक्षक देवा: कर में 6 किया उत्तर की अधिका (क) हमारे संकृत नाम पर खी बानेवाली इस बमाराणि की अमानत पर स्था/ अग्निम की भन्दर्श (ख) पूर्ववर्गी/अतावतीं का स्वतर के स्थार विकार के लिए हमा में 4 किया पर स्था/अग्निम की भन्दर्श (ख) पूर्ववर्गी/अतावतीं व्यक्ति / किया में 4 किया एक स्थान की कामाराणि की किया की स्थान की सम्बन्ध के स्थान के कामाराणि की कामाराणि कामाराणि की कामाराणि कामाराणि कामाराणि कामाराणि कामाराणि कामाराणि की कामाराणि की कामाराणि कामाराणि कामाराणि कामाराणि कामाराणि कामाराणि कामाराणि क	-	to abide by the provisions of the scheme in respect of my account	
act से रण्ड संकष्ट बचाज दर (फिलाझाल 1%) को काटकर व्याज प्रवात किया जाएगा जिस अवसी के लिए जमाराशी को बैंक के पास स्वरा गया है 1/1 understand and agree that where term deposits are repeal de fore maturity, the rate of interest payable would be the net a applicable to the period for which the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (Currently the rate is 1%).  9) जमाराशि पर ऋण', अविष्णुद समाराग ट्रेडिलिक्ट स्पीद जारी करने के लिए प्राचिक्त है ना से से एक (एक ) हमारे संयुवन मान पर एखी जानेवाली इस जमाराशि की जमाराय पर ऋण', अविष्णुद समाराग ट्रेडिलिक्ट स्पीद जारी करने हिए हमा में से किसी एक हमारे संयुवन मान पर एखी जानेवाली इस जमाराशि की जमाराय पर ऋण', अविष्णुद समाराग ट्रेडिलिक्ट स्पीद जारी करने पर आपनि उठाने के लिए हमा में से किसी के जमाराशि की एकम की समय पूर्व अवस्थागी कर सकता है और बेंक हारा मंजूर किए हमारे संयुवन में से किसी के जमाराशि की एकम की समय पूर्व अवस्थागी कर सकता है और के हारा मंजूर किए हमारे संयुवन में से किसी के जमाराशि की एकम की समय पूर्व अवस्थागी कर सकता है और के हारा मंजूर किए हमारे संयुवन से साराशि की एकम की समय पूर्व अवस्थागी कर सकता है और के हारा मंजूर किए हमा हमाराशिक हमार			।हले भगतान किया जाता है तो. उक्त जमाराशि पर उस अवधि के लिए लाग होनेवाली ब्याज
the deposit remained with the Bank as on the date of opening the account less the applicable penal rate (Currently the rate is 1%).  अनाराशि पर ऋण/अबिपूर्व समापन/बुक्लिकेट रसीद जारी करने के लिए प्राधिकार देनाः हम में से निकरी एक/इम से ये पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती व्यक्ति से लिखित अस्तेष की प्राणि पर, बैंक अपने अनन्य विवक्तिषिकार से और बैंक द्वारा नियत ऐसी शर्ती के अपीन (क) हमारे संयुक्त नाम पर एखी जानेवाली इस जमाराशि की जमानत पर ऋण/अग्रिम की मचूरी (थ) पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती व्यक्ति हम में से किसी एक/इम में से उत्तरजीयी व्यक्ति को जमाराशि की एकम की समय पूर्व अदायमां कर सकता है और बैंक हारा मंजूर किए गए उक्त ऋण या समयपूर्व अदायमां (ग) डुप्लिकेट रसीद जारी करने पर आपित उठाने के लिए हम में से किसी के वैष वारिस को अधिकार होंगा।  Authorisation for Loan against Deposit/Premature Closure/Issue of Duplicate Receipt: The Bank may, on receipt of a written request from either of us/survivor of us/former/latter of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan/advance against the security of this deposit to be made in our joint names, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter/either of us/the survivor of us and none of the legal heirs of any of us, will have a right to question the said granting of the loan or premature payment or (c) issue of duplicate Receipt.  (अ) अतिरिक्त सावधि अताराशिकों के लिए भी खाता खीलने का फार्म: मैं बैंक से अनुरोध करता है कि समय-समय परे हुद्दार उद्दी जीन अशीन है।  (अ) अतिरिक्त सावधि आताराशिकों के लिए भी खात खीलने का फार्म: मैं बैंक से अनुरोध करता है कि समय पर में हुद्दार उद्दी जीन के अशिक का अताराशिक को का का का अवाराशिक लिए इस पर का का का का अवाराशिक लिए के अताराशिक को अताराशिक खील के का का का अवाराशिक लिए कर की अवाराशिक खील के जा का स्वाराशिक के लिए इस समय के अवाराशिक के लिए इस समय है।  (अ) अतिरिक्त सावधि अताराशिक को अवाराशिक खीलने का फार्म समझें। उद्देश सावधिक जीन के एक अलाराशिक के लिए का का का अवाराशिक खील के अवाराशिक के अवाराशिक के लिए के अवाराशिक के लिए के अवाराशिक के अवाराशिक के अवाराशिक के अवा		दर से दण्ड स्वेरूप ब्याज दर (फिलहाल 1%) को काटकर ब्याज प्रदान किया र	जाएगा जिस अवधि के लिए जमाराशि को बैंक के पास रखा गया है।/I understand and
y) जमाराशि पर ऋण/अविधिपूर्व समापन/इस्लिकेट स्तीत जारी करने के लिए प्राधिकार देना: इम में से किसी एक/हम में से पूर्ववर्ती/अत्तरवर्ती व्यक्तिसे से लिखित असुरोध की प्राणि पर दें के अपने अनन विवेकाणिकार से और के इसा निवस ऐसी शर्ती के अधीन (क) हमारे संयुक्त नाम पर खी जानेवाली इस जमाराशि की जमानत पर ऋण/अग्निम की मबूर्ग (ख) पूर्ववर्ती/अत्तरवर्ती व्यक्ति हम में से किसी एक/हम में से अत्तरजीवी व्यक्ति को जमाराशि की समय पूर्व अदायागी कर सकता है और कैक द्वारा मंजूर किए एस में से किसी के वैध वासिस को अधिकार नहीं होगा।  Authorisation for Loan against Deposit/Premature Closure/Issue of Duplicate Receipt: The Bank may, on receipt of a written request from either of us/survivor of us/former/latter of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan/advance against the security of this deposit to be made in our joint names, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter/either of us/fibe survivor of us and none of the legal helies of any of us, will have a right to question the said granting of the loan or premature payment or (c) issue of duplicate Receipt.  (a) अतिरिक्त सावधि जमाराशियों के लिए परि खाता खोलने का फामे: मैं बैंक से असूरोध करता हूँ कि समय-समय पर में द्वार उसी/उन्हीं नाम/नामों/हिसियत के अधीन ती सावधि जमाराशियां को लिए इस फामें के खाता खोलने का फामे: मैं बैंक से असूरोध करता हूँ कि समय-समय पर में द्वार उसी/उन्हीं नाम/नामों/हिसियत के अधीन है।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यस नाम/नामों हिस्सतों या नामंकन/अवाया/िव्याव की अत्रयागी संबंधिय अधियों में कोई परिवर्तन हो तो में एक अला खाखियों का फार्य परिवर्त के पात्र			
असुरोध की प्राणि पर, बैंक अपेन अनन्य विवेकाधिकार से और बैंक द्वारा नियत ऐसी शर्तों के अपीन (क) हमारे सेवुन ताम पर संखी जोनेवाली इस जमाराशि की जमानत एर क्रणा-अद्रोम की मंजूरा (ख) पूर्वर्दात / उसत्वर्दा व्यक्ति हम में से किसी एक, हम में से उत्तरावी व्यक्ति को जमाराशि की रक्तम की समय पूर्व अदायगी कर सकता है और बैंक द्वारा मंजूर किए गए उक्त ऋण या समयपूर्व अदायगी (ग) डुप्लिकेट रसीद जारी करने पर आपित उठाने के लिए हम में से किसी एक राम करने पर आपित उठाने के लिए हम में से किसी के बैंध वारिस को अधिकार नहीं होगा।  Authorisation for Loan against Deposit/Premature Closure/Issue of Duplicate Receipt: The Bank may, on receipt of a written request from either of us/survivor of us/former/latter folus, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan/advance against the security of this deposit to be made in our joint names, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter/either of us/fths survivor of us and none of the legal heirs of any of us, will have a right to question the said granting of the loan or premature payment or (c) issue of duplicate Receipt.  அतिरक्त साविष्ठ जमाराशियों के लिए पर खाता खोलने का फार्म: में हैं कई असूरोय करता है (के समय-समय पर में द्वारा उसी/उन्हीं नाम/नामाँ/हैंसियत के अधीन और नामांकन, अदायगी और व्याज की अदायगी के लिए उन्हीं अधिदेशों सिहत खोले जानेवाले/नवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त साविष्ठ जमाराशिया खातों के लिए इस फार्म के खाता खोलने का फार्म समझें । यह में द्वारा अभिदेश साविष्ठ जानेवाले आवश्यक अनुरेशों के अधीन है।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit Account (Tick the applicable Items):  असरिक्त मामारी हो साम प्राणिक्त को देश दे A Repaya	v)	जमाराशि पर ऋण/अवधिपूर्व समापन/डप्लिकेट रसीद जारी करने के न	<b>लिए प्राधिकार देना:</b> हम में से किसी एक/हम में से पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती व्यक्ति से लिखित
है और वैंक द्वाप मंजूद किए गए उक्त ऋण या समयपूर्व अदायगी (ग) डुप्लिकेट रसीद जारी करने पर आपत्ति उठाने के लिए हम में से किसी के वैध वारिस को अधिकार नहीं होगा।  Authorisation for Loan against Deposit/Premature Closure/Issue of Duplicate Receipt: The Bank may, on receipt of a written request from either of us/survivor of us/former/latter of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan/advance against the security of this deposit to be made in our Inames, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter/either of us/the survivor of us and none of the legal heirs of any of us, will have a right to question the said granting of the loan or premature payment of (c) issue of duplicate Receipt.  அतिरक्त सावधि जमराशियों के लिए भी खाता खोलने का फार्म : मैं क्षेत्र से अनुरोध करता है कि समय-समय पर मेरे द्वारा उसी/उन्हीं नाम/नामों/हैसियत के अधीन और नामांकन, अदायगी और ब्याज की अदायगी के लिए उन्हीं अधिदेशों सहित खोले जानेवाले/त्रवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमराशिय खातों के लिए इस फार्म के खाता खोलने का फार्म समझें । यह मेरे द्वारा अपेक्षित सावधि जमरासित, रकम और परिपक्तता के संबंध में आपको अलगा रूप से दिए जानेवाले आवश्यक अनुरेशों के अधीन है ।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों हैसियतों या नामांकन/अदायमी/ब्याज की अतायगी से संविध्य अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो में एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँग। If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  அपरी अत्राप्त कि सिव्य या नित्र कि स्वाप्त क		अनुरोध की प्राप्ति पर, बैंक अपने अनन्य विवेकाधिकार से और बैंक द्वारा निय	त ऐसी शर्तों के अधीन (क) हमारे संयुक्त नाम पर रखी जानेवाली इस जमाराशि की जमानत
Authorisation for Loan against Deposit/Premature Closure/Issue of Duplicate Receipt: The Bank may, on receipt of a written request from either of us/sur/vor of us/former/latter of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan/advance against the security of this deposit to be made in our joint names, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter/either of us/fine survivor of us and none of the legal heirs of any of us, will have a right to question the said granting of the loan or premature payment or (c) issue of duplicate Receipt.  (i) अतिरिक्त सावधि जमाराशियों के लिए पी खाता खोलने का फार्म: मैं कें से अनुरोध करता है कि समय-समय पर मेरे द्वारा उसी/उन्हीं नाम/नामों/हैसियत के अधीन और नामांकन, अदायगी और ब्याज की अदायगी के लिए उन्हीं अधिदेशों सहित खोले जानेवाले/नवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमाराशिय खातों के लिए इस फार्म को खाता खोलने का फार्म समझें। यह मेरे द्वारा उन्हीं अधिदेशों सहित खोले जानेवाले/नवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमाराशिय खातों के लिए इस फार्म को खाता खोलने का फार्म समझें। यह मेरे द्वारा उन्हीं अधिदेशों सहित खोले जानेवाले/नवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमाराशिय खातों के लिए इस कंप अधीन है।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/ब्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्त हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा    If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  परिवर्ध कें स्वार कें सिर्ट परिवर्ध कें सिर्ट परिवर्ध कें		है और बैंक द्वारा मंजूर किए गए उक्त ऋण या समयपूर्व अदायगी (ग) डुप्लिबे	र्क/हम में से उत्तरजावा व्यक्ति को जमाराशि का रकम का समय पूर्व अदायगा कर सकता ज्ट रसीद जारी करने पर आपत्ति उठाने के लिए हम में से किसी के वैध वारिस को अधिकार
request from either of us/survivor of us/former/latter of us, in its absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank may stipulate, (a) grant loan/advance against the security of this deposit to the made in our join names, (b) make premature payment of the proceeds of the deposit to the former/latter/either of us/the survivor of us and none of the legal heirs of any of us, will have a right to question the said granting of the loan or premature payment or (c) issue of duplicate Receipt.  (i) adfilter सावधि जमाराशियों के लिए भी खाता खोलने का फार्म हैं कैं के से अनुरोध करता हैं कि समय-समय पर में द्वारा उसी/उन्हों नाम/नामों/हैसियत के अधीन की सावधि जमाराशियों के लिए इस फार्म को खाता खोलने का फार्म समझें। यह मेरे द्वारा अपेक्षित सावधि जमा ससीद, रकम और गरिपक्वता के संबंध में आपको अलग रूप से दिए जानेवाले आवश्यक अनुशा के अधीन है।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/अयाव की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रसुत करूँगा   if there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  अपियती जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं): Operating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable Items):  बापसी अदायगी/Repayment:  अ. परिकता पर निम्निखित को देश : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों से कोई एक या उत्तर्धीवी को/Either or survivor			re/Issue of Duplicate Receipt: The Bank may, on receipt of a written
the proceeds of the deposit to the former/latter/either of us/the survivor of us and none of the legal heirs of any of us, will have a right to question the said granting of the loan or premature payment or (c) issue of duplicate Receipt.  (i) अतिरिक्त सावधि जमाराशियों के लिए भी खाता खोलने का फामें : मैं के से अनुरोध करता हूं कि समय-समय पर मेरे द्वारा उसी/उन्हीं नाम/नामों/हैसियत के अधीन और नामांकन, अदायगी और ब्याज की अदायगी के लिए उन्हीं अधिदेशों सहित खोले जानेवाले/नवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमाराशि खातों के लिए इस फामें को खाता खोलने का फामें समझें। यह मेरे द्वारा अपेक्षित सावधि जमा रसीद, रकम और परिपक्वता के संबंध में आपको अलग रूप से दिए जानेवाले आवश्यक अनुदेशों के अधीन है।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/व्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा। If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  सीयादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं): Operating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  बापसी अदायगी/Repayment:  अ. परिपक्वता पर निम्नलिखित को देश - A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor		request from either of us/survivor of us/former/latter of us, in i	ts absolute discretion and subject to such terms & conditions as the Bank
अतिरिक्त सावधि जमाराशियों के लिए भी खाता खोलने का फार्म: मैं बैंक से अनुरोध करता हूँ कि समय-समय पर में द्वारा उसी/उन्हीं नाम/नामों/हैसियत के अधीन और नामांकन, अदायगी और ब्याज की अदायगी के लिए उन्हीं अधिदेशों सहित खोले जानेवाले/नवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमाराशि खातों के लिए इस फार्म को खाता खोलने का फार्म समझें। यह मेरे द्वारा अपेक्षित सावधि जमा रसीद, रुकम और परिपक्वता के संबंध में आपको अलग रूप से दिए जानेवाले आवश्यक अनुदेशों के अधीन है।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposits account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/व्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा। If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  वियादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं): Deparating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  वापसी अदायगी/Repayment:  अ. परिपक्ता पर निम्निखित को देव : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor			
अधीन और नामंकन, अदायगी और ब्यांज की अदायगी के लिए उन्हीं अधिदेशों सहित खोले जानेवाले /नवीकृत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमाराशि खातों के लिए इस फार्म को खाता खोलने का फार्म समझें । यह मेरे द्वारा अपेक्षित सावधि जमा रसीद, रकम और परिपक्वता के संबंध में आपको अलग रूप से दिए जानेवाले आवश्यक अनुरेशों के अधीन हैं ।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/व्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा । If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  विवादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं): Departing instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  अग्रमसी अदायगी/Repayment:  अ. परिपकता पर मिन्नलिख को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor  2. पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी को/ Former or survivor  3. सभी/हम में से दोनों/उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  3. सभी/हम में से दोनों/उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  1. योचों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  1. योचों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  1. योचों में से को अपके पास/आपकी  1. मा करें।  अपरिकता पर आपन परिकों को अपके पास/आपकी  1. माम करें।  Credit interest to SB/CA/OD Account No.  1. की जमा करें।  (खाता धारक का नाम) के बचत बैंक/वालू खाता/ओडी खाता सं  1. माम करें।			
के लिए इस फार्म को खाता खोलने का फार्म समझें । यह मेरे द्वारा अपेक्षित सावधि जमा रसीद, रकम और परिपक्वता के संबंध में आपको अलग रूप से दिए जानेवाले आवश्यक अनुदेशों के अधीन हैं ।  The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों /हैसियतों या नामांकन/अदायगी/व्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा । If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  सीयादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं): Operating Instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items): वापसी अदायगी / Repayment:  अ. परिपक्ता पर निम्निखित को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor  2. पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी को/ Former or survivor  3. समी/हम में से दोनों/उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  3. समी/हम में से दोनों/उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  1. योग में एखे गए  4. के बचत बैंक/चाल् खाता/ओडी खाता सं  4. में जमा करें ।  Credit interest to SB/CA/OD Account No.  5	vi)	आतारक्त सावाध जमाराशिया के लिए भा खाता खालन का फाम: म अधीन और नामांकन अदायगी और ब्याज की अदायगी के लिए उन्हीं आ	बक स अनुराध करता हूं कि समय-समय पर मर द्वारा उसा/उन्हा नाम/नामा/हासयत के धेदेशों सहित खोले जानेवाले/नवीकत किए जानेवाले अतिरिक्त सावधि जमाराशि खातों
The account opening form for additional Term Deposits also: I request the Bank to treat this as the Account opening form for additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/ब्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा। If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  भीयादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं): Deparating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items): बापसी अदायगी/Repayment: अ. परिपक्ता पर निम्निलिखित को देय: A. Repayable on maturity to: 1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor		के लिए इस फार्म को खाता खोलने का फार्म समझें। यह मेरे द्वारा अपेक्षित स	गविध जमा रसीद, रकम और परिपक्वता के संबंध में आपको अलग रूप से दिए जानेवाले
additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by me from time to time under same name(s)/capacities and with the same mandates for nomination, repayment and payment of interest. This is subject to my giving you necessary instructions separately with regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यद नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/व्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा। If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  वियादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं):  Operating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  आपरिवक्ता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor		•	aleas I request the Bank to treat this as the Account opening form for
regard to the Term Deposit scheme desired, amount and maturity.  यदि नाम/नामों/हैसियतों या नामांकन/अदायगी/ब्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा ।  If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  Hयादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं):  Departing instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  आपसी अदायगी/Repayment:  अपरिपक्तता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor		additional Term Deposit account(s) to be opened/renewed by	me from time to time under same name(s)/capacities and with the same
यदि नाम/नामों /हैसियतों या नामांकन/अदायगी /ब्याज की अदायगी से संबंधित अधिदेशों में कोई परिवर्तन हो तो मैं एक अलग खाता खोलने का फार्म प्रस्तुत करूँगा । If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  नीयादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं):  Deperating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  बापसी अदायगी/Repayment:  अ. परिपक्वता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को / Either or survivor			
If there is any change in the name(s)/capacities or mandates for nomination/repayment/payment of interest, I will submit a separate Account Opening form.  नियादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं):  Operating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  ब्रापसी अदायगी/Repayment:  अ. परिपक्वता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor		- ·	· ·
मीयादी जमाराशि खाते के लिए परिचालन संबंधी अनुदेश (जो लागू है उस पर निशान लगाएं):  Operating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  ब्रापसी अदायगी/Repayment:  अ. परिपक्वता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor			
Operating instructions for Term Deposit Account (Tick the applicable items):  अप्रापसी अदायगी/Repayment:  अप्रिपक्वता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to:  1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को/Either or survivor  3. सभी/हम में से दोनों/उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  आप आविधक ब्याज का भुगतान: B. Payment of periodical interest:  व्याज को आपके पास/आपकी  शाखा में खे गए  असे बचत बैंक/चालू खाता/ओडी खाता सं  Credit interest to SB/CA/OD Account No.  Branch.  इ. परिपक्षता पर आगम राशि को आपके पास/आपकी  शाखा में रखे गए  with you/your  ## जमा करें।    शाखा में रखे गए			
आपसी अदायगी / Repayment: अ. परिपक्ता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to: 1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को / Either or survivor			
अ. परिपक्वता पर निम्नलिखित को देय : A. Repayable on maturity to: 1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को /Either or survivor □ 3. सभी /हम में से दोनों /उत्तरजीवी को /All /Both of us /survivors □ आ. आविधक ब्याज का भुगतान: B. Payment of periodical interest: ब्याज को आपके पास /आपकी शाखा में रखे गए के बचत बैंक /चालू खाता /ओडी खाता सं में जमा करें ।  Credit interest to SB/CA/OD Account No. of with you/your Branch.  इ. परिपक्कता पर आगम राशि को आपके पास /आपकी शाखा में रखे गए	=		ounc terraj.
1. दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी को / Either or survivor ☐ 2. पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी को / Former or survivor ☐ 3. सभी / हम में से दोनों / उत्तरजीवी को / All / Both of us / survivors ☐ आ. आविधक ब्याज का भुगतान: B. Payment of periodical interest: ब्याज को आपके पास / आपकी			
आ. आवधिक ब्याज का भुगतान: B. Payment of periodical interest: ब्याज को आपके पास/आपकी शाखा में रखे गए के बचत बैंक/चालू खाता/ओडी खाता सं गें जमा करें । Credit interest to SB/CA/OD Account No. of with you/your Branch. इ. परिपक्कता पर आगम राशि को आपके पास/आपकी शाखा में रखे गए			2. पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी को/ Former or survivor 🔲
ब्याज को आपके पास/आपकी शाखा में रखे गए में जमा करें।  Credit interest to SB/CA/OD Account No. of with you/your Branch.  इ. परिपक्ता पर आगम राशि को आपके पास/आपकी शाखा में रखे गए (खाता धारक का नाम) के बचत बैंक/चालू खाता/ओडी खाता सं	3. सर्भ	ी/हम में से दोनों/उत्तरजीवी को/All/Both of us/survivors  ☐	
के बचत बैंक/चालू खाता/ओडी खाता सं			
Credit interest to SB/CA/OD Account No			
ह. परिपक्षता पर आगम राशि को आपके पास/आपकीशाखा में रखे गए (खाता धारक का नाम) के बचत बैंक/चालू खाता/ओडी खाता सं		7 - 7	
(खाता धारक का नाम) के बचत बैंक/चालू खाता/ओडी खाता सं			of with you/your
	इ. परि	पकता पर आगम राशि को आपके पास/आपकी	शाखा में रखे गए
C. Credit maturity proceeds to SB/CA/OD Account No of (name of the account			
nolder) with you/your Branch.		· ·	
ई. नवीकरण (जो लागू है उस पर निशान लगाएं)/D. Renewal (Tick as applicable) (i) मैं/हम इस जमाराशि को तथा उस पर अजिंत ब्याज को *छोड़कर/सम्मिलित करके उसकी परिपक्वता की तारीख तक उक्त दिवस को प्रचलित ब्याज इस पर समान अवधि के लिए नवीकत करने हेत बैंक को पाधिकत करता/करती हैं /करते हैं। यदि मैं/हम नवीकत जमाराशि को उसकी परिपक्वता से पहले	ई. नर्व (i) मैं/ दर पर	ीकरण (जो लागू है उस पर निशान लगाएं)/D. Renewal (Tick as a /हम इस जमाराशि को तथा उस पर अर्जित ब्याज को *छोड़कर/सर्गि - समान अवधि के लिए नरीकत करने हेत हैंक को एधिकत करना/व	pplicable) म्मेलित करके उसकी परिपक्वता की तारीख तक उक्त दिवस को प्रचलित ब्याज घरती हूँ /करते हैं। यदि मैं/हम नवीकत जमाराशि को समकी परिपक्तता से एटले
त्र पर समान अवधि के लिए नवीकृत करने हेतु बैंक को प्राधिकृत करता/करती हूँ /करते हैं। यदि मैं/हम नवीकृत जमाराशि को उसकी परिपक्वता से पहले बंद करता/करती हूँ/करते हैं या उसके नवीकरण के बाद उसकी परिपक्वता अवधि में परिवर्तन करना चाहता/चाहती हूँ /चाहते हैं तो बैंक अपनी नीति के अनुसार पूरी की गयी अवधि के लिए जमाराशि पर उपचित ब्याज से दण्ड स्वरूप ब्याज की कटौती करके जमा खाते को बंद कर सकता है। जमाराशि	बंद क के अन	न्रता/करती हूँ/करते हैं या उसके नवीकरण के बाद उसकी परिपक्वत नसार परी की गयी अवधि के लिए जमाराशि पर उपचित ब्याज मे ट	ा अवधि में परिवर्तन करना चाहता/चाहती हूँ /चाहते हैं तो बैंक अपनी नीति एड स्वरूप ब्याज की कटौती करके जमा खाते को बंद कर मकता है। जमागणि

की परिपक्तता की तारीख को या उस से पहले मेरे/हमारे द्वारा संबंधित जमाराशि रसीद प्रस्तुत न करने पर भी जमाराशि को नवीकृत किया जाए। मैं/हम समझता/ समझती हूँ / समझते हैं और सहमत होता/होती हूँ /हाते हैं कि जमाराशि के नवीकरण के लिए कोई उन्मोचन/अधिदेश की आवश्यकता नहीं है।

(\* जो लागू नहीं है उसे काटे दें)

I/We, authorise the Bank to renew this deposit \*excluding/including interest earned on the date of maturity for an identical period at the rate of interest prevailing on the day. In case, I/We close the renewed deposit prematurely or seek any change in the maturity period thereof after the renewal, the Bank can close the account deducting penal interest, from the interest payable for the completed period, as per the Policy of the Bank. The renewal may be done even if I/We am/are not able to surrender the deposit receipt on or before the date of maturity. I/We understand and agree that a separate discharge/mandate, is not required for the renewal of the deposit.

तथापि, यह प्राधिकरण, जमाराशि के अगले नवीकरणों के मामले में लागू नहीं होगा। This authorisation, however, does not extend to future renewals of the Deposit. (ii) मैं/हम उक्त जमाराशि को उसकी नियत तारीख तक अर्जित ब्याज को <sup>\*</sup>छो ड़कर/सम्मिलित करके उक्त दिन को प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए नवीकृत करने हुतु बैंक को प्राधिकृत करता/करती हूँ /करते हैं/जो मेरे/हमारे अगले अनुदेश तक जारी रहेगा। यदि मैं/हम नवीकृत जमाराशि को उसकी परिपक्वता से पहले बंद करता/करती हूँ /करते हैं या उसके नवीकरण के बाद उसकी परिपक्वता अवधि में परिवर्तन करना चाहता/चाहती हूँ /चाहते हैं तो बैंक अपनी नीति के अनुसार पूरी की गयी अवधि के लिए जमाराशि पर उपचित ब्याज से दण्ड स्वरूप ब्याज की क्टौती करते हुए जमा खाते को बंद कर सकता है। जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को या उस से पहले मेरे/हमारे द्वारा जमाराशि रसीद प्रस्तुत न करने पर भी जमाराशि को नवीकृत किया जाए। मैं/हम समझता/समझती हूँ /समझते हैं और सहमत होता/होती हूँ /होते हैं कि जमाराशि के नवीकरण के लिए कोई उन्मोचन/अधिदेश की आवश्यकता नहीं है।

(\* जो लागू नहीं है उसे काटे दें)

I/We, authorise the Bank to renew the deposit and renewals thereof \*excluding/including interest earned on the respective due date for an identical period at the rate of interest prevailing on the day till I/We instruct to the contrary. In case, I/We prematurely close the renewed deposit or seek any change in the maturity period thereof after the renewal, the Bank can close the account deducting penal interest from the interest payable for the completed period as per the Policy of the Bank. The renewal may be done even if I/We am/are not able to surrender the related deposit receipt on or before the date of maturity. I/We understand and agree that a separate discharge/mandate is not required for the renewal of the deposit.

## (\*Strike off whichever is not applicable)

(iii) जमाराशि को तभी नवीकृत किया जाए जब मेरे/हमारे द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अनुदेश दिया जाता है। मैं/हम समझता/समझती हुँ /समझते हैं और सहमत होता/ होती हूँ /होते हैं कि यदि जमाराशि को परिपक्वता की तारीख के बाद नवीकृत /बंद किया जाता है तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

The deposit may be renewed only if specifically instructed by me/us. I/We understand and agree that in case the deposit is renewed/closed

- after the date of maturity, the following rules will apply.

  (क) यदि जमाराशि को उसकी परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के भीतर नवीकृत किया जाता है तो नवीकृत जमाराशि पर उस दर पर ब्याज देय होगा जो जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को लागू थी।
- If the renewal is done within 14 days of the date of maturity, interest will be payable on the renewed deposit at the applicable rate of interest prevailing on the date of maturity.
- यदि जमारांशि को उसकी परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के बाद नवीकृत किया जाता है तो, नवीकृत जमाराशि पर उस दर पर ब्याज देय होगा जो जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को या उसके नवीकरण की तारीख को लागू थी, इनमेँ से जो भी कम हो।
- If the renewal is done after 14 days of the date of maturity, interest will be payable on the renewed deposit at the applicable rate of
- interest prevailing on the date of maturity or the date of renewal, whichever is less. यदि जमाकृतों से कोई नवीकरण अनुदेश प्राप्त नहीं होता है और बाद में जमाराशि को बंद किया जाता है तो जमाराशि पर उसकी परिपक्वता की तारीख से लेकर उसके भुगतान की तारीख तक बचत बैंक दर पर ब्याज देय होगा।
- If no renewal instructions are received from the depositor at any stage and the deposit is closed subsequently, interest will be payable from the date of maturity till the date of payment, at the Savings Bank rate prevailing on the date of maturity.
- फार्म सं.15 जी/एच : (d) Form No.15 G/H: स्त्रोत पर कर की कटौती से छूट प्राप्त करने के लिए फार्म सं.15 जी/एच संलग्न है।/ Form No. 15 G/H for exemption from deduction of tax at source enclosed.

(लो लागू है उस पर निशान लगाएं)/(Tick whichever is applicable) <b>हाँ/Yes</b>	नहीं / No	
--	-----------	--

- (ङ) मैं/हम समझता/समझती हूँ /समझते हैं और स्वीकार करता/करती हूँ /करते हैं कि खाता खोलते समय और इसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यदि मैं/हम फार्म 15 जी/एच प्रस्तुत करने में विफल होता/होती हूँ /होते हैं तो बैंक आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय/उपचित ब्याज पर टीडीएस लागू कर सकता है और यदि मैं/हम अपना पैन संख्या (उसकी फोटो प्रति कें साथ) बैंक को सूचित करने में विफल होता/होती हूँ /होते हैं तो सीबीडीटी/आय कर विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जानेवाली दर पर टीडीएस की कटौती की जाएगी।
- I/We understand and accept that if I/We fail to submit Form 15 G / H at the time of opening the account and thereafter annually at the beginning of each Financial Year, the bank may effect TDS from the interest payable/accrued as per provisions of the Income Tax Act and that if I/We fail to inform my/our PAN (along with Xerox copy of the same) to the bank, such deduction will be at the rate prescribed by CBDT/Income Tax department from time to time.

मैं/हम सावधि जमा खातों के संबंध में समय-समय पर जारी किए जानेवाले नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं /हैं। I am agreeable to abide by the rules pertaining to Term Deposit accounts in force from time to time.

नामांकन/Nomination मैं/ नाबालिंग की मृत्यु पर खाते में रहने वाली जमाराशि की रकम को जिसके ब्यौरे	(ग्राहक का नाम व पता) निम्नांकित व्यक्ति को नामित करता हूँ /करते हैं जिसे मेरी/हमा ो इसके नीचे दिए गए हैं, सिंडिकेट बैंक,
(उस शाखा का नाम जहाँ खा	ता है) द्वारा वापस किया जाए। (Name & Address
the customer) nominate following person to whom, in the even	nt of my/our/minor's death, the amount of the deposit in the account, particula ,(Name of Branch where the account is held).
जमाराशि/Deposit	

जमाराशि का स्वरूप	विशिष्ट संख्या	अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो
Nature of Deposit	Distinguishing No.	Additional details, if any

## नामिती/Nominee

नामिती का नाम व पता Name & address of the Nominee	जमाकर्ता के साथ संबंध यदि हो Relationship with the Depositor, if any	आयु Age	जन्म दिनांक यदि नामिती नाबालिग हो* If nominee is a minor Date of Birth*						
*उक्त दिनांक को नामिती नाबालिग होने के कारण नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से जमाराशि रकम प्राप्त करने के लिए मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी									
	(¬		यु, संबंध और पता) को नियुक्त करता हूँ /करते हैं।						
* As the nominee is a minor on this date,	I appoint Sri/Smt./Kum.		(name, age, relationship and address)						
o receive the Deposit amount on behalf	of the nominee in the event of my/our/minor's de	eath du	ring the minority of the minor.						
ा मद्ये नामांकन की आवश्यकता नहीं है ।/।	do not require any nomination								

	मुझे नामांकन की	ो आवश्यकता नर्ह	रें है ।/।	do not requ	ire any	nomination.
_	(A)		, .			

🔲 कृपया जमा रसीद पर नामिती के नाम का उल्लेख करें /उल्लेख न करें।/I request you to indicate/not to indicate the name of the nominee on the deposit receipt.

साक्षी के हस्ताक्षर/Signature of Witnesses नाम व पता/Name & Address:

1.

\*\* जमाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर/\*\*Signature(s) of Depositor(s)

- केवल अंगूठा निशान के मामले में साक्षी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाए। Witnesses required only in case of thumb impression/s
  \*यदि नामिती नाबालिग नहीं है तो इस मद को काट दें
  \*\* यदि नाबालिग के नाम में जमाराशि रखी जाती है तो नामांकन पर नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए
  \*Strike out if nominee is not a minor.
  - Where deposit is made in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

स्थान/PI दिनांक/[	ace: Oate:												
			(आवेदक – 'व (Signature of	5' के हस्ताक्षर) Applicant-A)		•		के हस्ताक्षर) oplicant-B)			वेदक – 'ग nature of		
				खाते के लिए पर्र	रेचय/INTRO	DUCTIO	ON OF THE	E ACCOUNT					
मैं इस ख I know	ाते के आवे the app	दक/कों को  icant/s for	this account pe	ersonally since		वर्ष से व	व्यक्तिगत रू	प से जानता हूँ	और आवेदन	पत्र में दिए गए address st	र उनके पते ated in th	की पुर्ग ne ap	ष्टे करता हूँ। pplication.
नाम/Na खाता सं	ame: ./A/cN	o.:									हस्ताक्षर/	/Sign	nature
			<u>ব</u>	माराशि प्रमाणपत्र व	ि रसीद/RE	CEIPT	OF DEPOS	IT CERTIFIC	ATE				
				ate No		-							
दिनांक/	Date:						 जमा	कर्ता/जमाकत	ाओं के हस्त	ाक्षर/Signat	ture of th	e De	positor(s)
				केवल शास	व्रा के उपयोग	हेत/Fo	r Branch U	se only					
(a) P (ख) ख (b) P (ग) नि	urpose o ाते में संभ	व्य लेन-देन activity expe स्त्रोत	he account ected in the ac			(घ) (d) (ङ) (e) (e) (च)	मासिक/व Monthly/ वार्षिक आ Annual II खाते का श्रे	ार्षिक टर्नओव 'Annual Tur य	nover धेक जोखिम				
(c) S	ource or	iunas		पड़ताल और सत्या Checked and			Classilic	ation of the	account (r	<u> </u>	नामांकन	पंजी	-
										संख्य	Π/No.	दिन	iक/Date
  दिनांक/	Date:		पर्यवेक्षक/Supe	rvisor		शाखा प्र	ाबंधक/Bra	nch Manag	 ier				
				मास्टर आवेदन प Details of Deposi					orm	·			
क्र.सं./ SI. No.	दिनांक/ Date	जमाराशि का स्वरूप/ Nature of Deposit	खाता सं./ रसीद सं./ Account No./ Receipt No.	मुद्रित रसीद सं. / Printed Receipt No.	रकम/ Amount	अवधि/ Term	ब्याज दर/ Rate of Interest	परिपक्वता की तारीख/ Date of Maturity	परिपक्वता की राशि Maturity amount	अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Officer	शाखा प्रव के हस्ता। Signate of the Branc head	क्षर/ ure e h-	निपटान की विधि/ Mode of Disposal
नामांकन प	पंजी में ना	मांकन की पवि	विष्ठ की गई जिसके	जे क्रम संख्या		<u> </u>	है। खाता खं	ोलने के कार्य	को				दाग
प्राधिकृत Nomina	किया गय tion ente	lered in the l		gister Sr. No									
	शाखा प्रमु	☑/Manage	er/Head of the	Branch									
		क/A			7	ख/B				ग,	/c		
नमूना हर	ताक्षर/S	pecimen S	ignatures:					,					

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर Signature of the Supervisor

शाखा प्रमुख के हस्ताक्षर Signature of the Head of Branch